

Chatswood High School

इनटेक (भर्ती) के क्षेत्र में परिवर्तन

मार्च 2021

Chatswood High School के इनटेक क्षेत्र को परिवर्तित क्यों किया जा रहा है?

जैसे-जैसे समुदायों में निरंतर वृद्धि और परिवर्तन होता है, NSW शिक्षा विभाग इनटेक क्षेत्रों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करना जारी रखते हैं।

Lindfield Learning Village के लिए एक नए स्कूली इनटेक क्षेत्र का निर्धारण NSW के शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। Chatswood High School के इनटेक क्षेत्र में जनसंख्या शीघ्र दर से बढ़ रही है और यह अनुमान लगाया जाता है कि यह वृद्धि जारी रहेगी। Chatswood High School और Lindfield Learning Village के बीच में इनटेक क्षेत्र की सीमा का समायोजन करने से जनसांख्यिकीय क्षेत्र में भविष्य की भर्तियों को संतुलित करने में सहायता मिलेगी।

नए इनटेक क्षेत्रों का निर्धारण कैसे किया गया था?

प्रक्रिया को Chatswood और Lindfield क्षेत्रों में अनुमानित भर्तियों के बारे में जनसांख्यिकीय सलाह के आधार पर तथा स्थानीय प्राईमरी और सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ संयोजन में तैयार किया गया था।

नए कैचमेंट क्षेत्र को पीछे दिए गए नक्शे पर और School Finder की वेबसाइट schoolfinder.education.nsw.gov.au पर पाया जा सकता है।

बदलाव कब किया जाएगा?

इनटेक क्षेत्र समायोजन 2022 के लिए कक्षा 7-12 के लिए सभी नई भर्तियों के लिए लागू होगा।

भर्ती से सम्बन्धित और अधिक विवरणों के लिए, कृपया स्कूल की वेबसाइट chatswood-h.schools.nsw.gov.au पर जाकर enrolment टैब का चयन करें।

यदि अब मैं Lindfield Learning Village के इनटेक क्षेत्र में रहता/रहती हूँ परन्तु मैं अपनी संतान को हमारे पुराने इन-एरिया या अन्य स्कूल में भर्ती कराना चाहता/चाहती हूँ तो क्या होता है?

क्षेत्र से बाहर की भर्तियों के लिए निवेदनों पर सामान्य प्रक्रिया विभाग की भर्ती नीति के अनुसार लागू होगी। अधिक जानकारी के लिए उस स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करें जहाँ आप भर्ती कराने की कोशिश कर रहे/रही हैं।

मेरी संतान पहले से Chatswood High School में पढ़ाई कर रही है, यदि अब मैं Lindfield Learning Village के इनटेक क्षेत्र में हूँ तो क्या मेरी संतान उसी स्कूल में पढ़ना जारी रख सकती है।

हाँ वह ऐसा कर सकते हैं। पहले से ही Chatswood High School में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई बदलाव नहीं है। वे Chatswood High School में कक्षा 12 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।

मेरी संतान पहले से Chatswood High School में पढ़ाई कर रही है, यदि हम Lindfield Learning Village के नए इनटेक क्षेत्र में रहते हैं तो क्या वे Lindfield Learning Village में नए स्कूल में स्थानांतरण कर सकते हैं?

हाँ वे ऐसा कर सकते हैं। यदि आप Lindfield Learning Village के इनटेक क्षेत्र में रहते हैं तो उन्हें Lindfield Learning Village पर स्वीकार किया जाएगा।

यदि मेरे पुराने इन-एरिया स्कूल में मेरी संतान भर्ती है और मैं उसके भाई-बहन को भी उसी स्कूल में भर्ती करना चाहता/चाहती हूँ जो कि अब क्षेत्र से बाहर माना जाता है तो क्या होगा?

परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार जिनकी संतान पहले से ही किसी अलग स्कूल में भर्ती हैं, वे उस स्कूल पर रहने में सक्षम होते हैं। वे अन्य भाई-बहनों को भी भर्ती करने में सक्षम होते हैं।

मैं इस परिवर्तन के बारे में और अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

इनटेक क्षेत्र के परिवर्तन के बारे में अधिक जानकारी School Finder की वेबसाइट schoolfinder.education.nsw.gov.au पर उपलब्ध है। अपडेट की गई जानकारी तथा साथ ही 2022 के नए इनटेक क्षेत्रों के लिंक के लिए लाल रंग के चेतावनी (रेड अलर्ट) संदेश देखें।

Chatswood High School पर भर्तियों और नीतियों के बारे में पूछताछ के लिए कृपया chatswood-h.school@det.nsw.edu.au पर ई-मेल या 02 9419 3611 पर टेलीफोन करें।

Lindfield Learning Village पर भर्तियों और नीतियों के बारे में पूछताछ के लिए कृपया lindfieldlearningvillage@det.nsw.edu.au पर ई-मेल या 02 9415 8006 पर टेलीफोन करें।

NSW शिक्षा विभाग (Department of Education) - स्कूल की मूलभूत सुविधाएँ

2022 के Chatswood High School के इनटेक क्षेत्र

